



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 18, 2008/अग्रहायण 27, 1930

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2008/AGRAHAYANA 27, 1930

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.नि.आ. 32(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 फरवरी, 2009 को ऐसी तारीख के रूप में निदेशित करती है जिसको लखनऊ छावनी बोर्ड के वार्ड V की बाबत निर्वाचन होंगे।

[फा. सं. 14(1)/2007/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दहिया, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.R.O. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby directs the 15th February, 2009 as the date on which election to the Cantonment Board, Lucknow in respect of Ward number V shall be held.

[F. No. 14 (1)/2007/D(Q & C)]

R. S. DAHIYA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसंबर, 2008

का.नि.आ. 33(अ).—दिनांक 11-6-2008 के का.नि.आ. 12(अ) के तहत अधिसूचना से आगे, इसके प्रति केन्द्रीय सरकार के 4937 GI/2008

इस बात पर संतुष्ट होने पर कि निम्नलिखित छावनियों के प्रशासन के लिए इन छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार करना वांछनीय है, केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (4) और उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के तहत एतद्वारा इस संबंध में यह घोषणा करती है और निदेश देती है कि इन बोर्डों का कार्यकाल आगामी दिनांक 31-3-2009 तक अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 12 के तहत इन बोर्डों का गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाए :

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम
(1)	(2)
1.	जबलपुर
2.	महू
3.	सागर

[फा. सं. 14(1)/2007/-डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दहिया, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.R.O. 33(E).—Further to the notification vide S.R.O. 12(E), dated 11-6-2008, the Central Government, on being satisfied that for the administration of the following Cantonments it is desirable to keep the constitution of these Boards varied, hereby makes a declaration under clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) to that effect

and directs that the terms of the said Boards shall stand extended for a further period up to 31-3-2009 or till the constitution of these Boards under Section 12 of the Cantonments Act, 2006, whichever is earlier :

Serial Number	Name of the Cantonment Board
(1)	(2)
1.	Jabalpur
2.	Mhow
3.	Saugor

[F. No. 14(1)/2007-D (Q&C)]

R. S. DAHIYA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.नि.आ. 34(अ).— भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की का.नि.आ. 13(अ) दिनांक 11-6-2008 एवं का.नि.आ. 33(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचनाओं के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट छावनी बोर्ड के कालम (3) में निर्दिष्ट सदस्य के नामांकन की अवधि 31 मार्च, 2009 तक अथवा उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड का गठन किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाती है।

तालिका

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत गठित होने वाले छावनी बोर्ड के सदस्य का नाम
1.	(2)	(3)
1.	महू	श्री मुजीब रहमान कुरैशी

[फा. सं. 14(1)/2007-डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दहिया, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.R.O. 34(E).—In pursuance of sub-section (3) of Section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notifications of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 13(E) dated 11-6-2008 and S.R.O. 33(E) dated 18th December, 2008, the term of nomination of member of the Cantonment Board specified in column (2) of the Table given below indicated in column (3) thereof is extended for a further period up to 31st March, 2009 or till the constitution of the Board under Section 12 of the said Act, whichever is earlier.

TABLE

Serial Number	Name of the Cantonment Board	Name of the member constituting Cantonment Board under Clause (c) of sub-section (2) of Section 13 of the said Act.
(1)	(2)	(3)
1.	Mhow	Shri Mujeeb Rehman Qureshi

[F. No. 14(1)/2007-D (Q&C)]

R. S. DAHIYA, Under Secy